



थाना डिडौली पुलिस द्वारा 03 शातिर अन्तर्राज्यीय शराब तस्कर अभियुक्त मय 100
पेटी अवैध शराब(हरियाणा मार्का), अवैध शस्त्रों व घटना में संलिप्त एम्बुलेन्स गाडी सहित
गिरफ्तार ।

अपराध नियंत्रण एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत श्रीमति सुनीति पुलिस अधीक्षक जनपद अमरोहा के नेतृत्व में, श्री अजय प्रताप सिंह अपर पुलिस अधीक्षक के कुशल निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी नगर श्री विजय कुमार के निकट पर्यवेक्षण में आगामी पंचायत चुनाव को दृष्टिगत रखते हुये शराब माफियाओं/अवैध शराब के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत आज दिनांक 08.04.2021 को थाना डिडौली पुलिस द्वारा सूचना पर नारंगपुर तिराहे पर चैकिंग के दौरान दिल्ली की तरफ से आ रही फर्जी नम्बर प्लेट लगी एम्बुलेन्स गाडी में अवैध शराब की तस्करी करने वाले 03 अभियुक्त 1. पुष्पेन्द्र को मय 01 तमंचा, 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर 2. मीनू को मय 01 अवैध चाकू व 3. अजय को मय 01 चाकू सहित गिरफ्तार किया गया । अभियुक्तगण के कब्जे से एम्बुलेन्स गाडी मे पीछे छिपाकर रखी गई 100 पेटी RACE-7 हरियाणा मार्का अवैध शराब व डेस्कबोर्ड से 03 फर्जी नम्बर प्लेट बरामद हुई । गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना डिडौली पर अभियुक्तगण के विरुद्ध मु0अ0स0 125/2021 धारा 63 आबकारी अधि0 420/467/468/471 भादवि, मु0अ0स0 126/2021 धारा 3/25 आयुध अधि0 बनाम पुष्पेन्द्र, मु0अ0स0 127/2021 धारा 4/25 आयुध अधि



बनाम मीनू, मु0अ0स0 128/2021 धारा 4/25 बनाम अजय पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी ।



पूछताछ विवरण:-

पूछताछ पर अभियुक्तगण द्वारा बताया गया कि हम लोग आर्थिक लाभ लेने हेतु गैर प्रान्तो से कम दामों में शराब खरीदकर आगामी ग्राम पंचायत चुनाव में बिक्री कर अच्छी खासी कमाई करते है । पुलिस व आबकारी विभाग को धोखा देने के लिये इस एम्बुलेन्स गाडी पर नम्बर प्लेट बदल बदल कर लगाते है तथा पीछे की तरफ कोई भी नम्बर प्लेट नही लगाते है । एम्बुलेन्स होने के कारण पुलिस भी हमारी गाडी को नही रोकती थी जिससे हम आसानी से अवैध शराब की तस्करी कर लेते थे ।

गिरफ्तार अभियुक्त:-

1. पुष्पेन्द्र उर्फ पप्पी निवासी ग्राम फोंदापुर थाना गजरौला जनपद अमरोहा ।
2. मीनू पुत्र जिले सिंह निवासी ग्राम गढ मीरकपुर थाना राई जनपद सोनीपत हरियाणा ।
3. अजय कुमार पुत्र सीरत राम निवासी ग्राम रोडा थाना खरकोदा जनपद सोनीपत हरियाणा ।

बरामदगी:-

1. 100 पेटी अवैध शराब RACE-7 हरियाणा मार्का ।
2. 01 तमंचा 315 बोर, 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर व 02 अवैध चाकू ।
3. घटना मे संलिप्त एम्बुलेन्स गाडी रजि0न0 UP15BT 2390(फर्जी नम्बर प्लेट) व 3 फर्जी नम्बर प्लेट ।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त पुष्पेन्द्र उर्फ पप्पी :-

1. मु0अ0स0 125/2021 धारा 63 आबकारी अधि0 व 420/467/468/471 भादवि थाना डिडौली

2. मु0अ0स0 126/2021 धारा 3/25 आयुध अधि0 थाना डिडौली ।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त मीनू :-

1. मु0अ0स0 125/2021 धारा 63 आबकारी अधि0 व 420/467/468/471 भादवि थाना डिडौली
2. मु0अ0स0 127/2021 धारा 3/25 आयुध अधि0 थाना डिडौली ।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त अजय :-

1. मु0अ0स0 125/2021 धारा 63 आबकारी अधि0 व 420/467/468/471 भादवि थाना डिडौली
2. मु0अ0स0 128/2021 धारा 3/25 आयुध अधि0 थाना डिडौली ।

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री अजय भदौरिया थाना डिडौली जनपद अमरोहा ।
2. वरि0 उ0नि0 श्री सतेन्द्र सिंह थाना डिडौली जनपद अमरोहा ।
3. उ0नि0 श्री पप्पू जादौन थाना डिडौली जनपद अमरोहा ।
4. हे0का0 144 रघुवीर सिंह थाना डिडौली जनपद अमरोहा ।
5. का0 1315 यतेन्द्र थाना डिडौली जनपद अमरोहा ।
6. का0 1065 शिवांक यादव थाना डिडौली जनपद अमरोहा ।

